

उन्होंने वे सारे खेत नगरों के साथ पाए जो बालत्वेर तक फैले थे। (यह नेगव क्षेत्र में रामा ही है।) इस प्रकार यह वह प्रदेश था, जो शिमोनी लोगों के परिवार समूह को दिया गया। हर एक ने इस भूमि को प्राप्त किया।

רַב बड़ा	יְהוּדָה यहूदा-का	בְּנֵי- बेटों-	חֵלֶק भाग	הָיָה था	כִּי- क्योंकि-	שְׁמֹעוֹן शिमोन	בְּנֵי बेटों	נַחֲלָת मीरास	יְהוּדָה यहूदा-के	בְּנֵי बेटों	מִחֶבְלָה से-हिस्से	9
	H3063			H1961		H8095		H5159	H3063			

פ —	נַחֲלָתָם: उनकी-मीरास	בֵּתוֹן बीच-में	שְׁמֹעוֹן शिमोन-की	בְּנֵי- बेटों-	וַיִּנְחֲלוּ और-मीरास-मिली	מִהֶם उनसे
	H5159	H8432	H8095		H5157	H1992

शिमोनी लोगों की भूमि यहूदा के प्रदेश के भाग से ली गई थी। यहूदा के पास उन लोगों की आवश्यकता से अधिक भूमि थी। इसलिए शिमोनी लोगों को उनकी भूमि का भाग मिला।

נַחֲלָתָם उनकी-मीरास-की	גְּבוּל सीमा	וַיְהִי और-थी	לְמִשְׁפַּחָתָם उनके-कुलों-के-अनुसार	זְבוּלוֹן जबूलून	לְבָנָיו बेटों-के-लिए	הַשְּׁלִישִׁי तीसरी	הַגּוֹרָל चिट्ठी	וַיַּעַל और-निकली	10
H5159	H1366	H1961	H4940	H2074		H7992	H1486	H5927	

עַד- तक-	שָׂרִיד: सारीद
H5704	H8301

दूसरा परिवार समूह जिसे अपनी भूमि मिली वह जबूलून था। जबूलून के हर एक परिवार समूह ने दिये गए वचन के अनुसार भूमि पाई। जबूलून की सीमा सारीद तक जाती थी।

עַל- पर-	אֲשֶׁר जो	הַנָּחַל नहर	אֶל- पास-	וּפְנֵעַ और-छुई	בְּדַבְשֶׁת दब्बेशेत	וּפְנֵעַ और-छुई	וּמִרְעֵלָה और-मराला	לַיַּמָּה पश्चिम-ओर	וּגְבוּלָם उनकी-सीमा	וְעַלָּה और-चढ़ी	11
			H4013	H6293	H1708	H6293	H4831	H3220	H1366	H5927	

פְּנֵי सामने	יָקִנְעָם: याकनेआम
H6440	H3362

फिर वह पश्चिम में मरला से होती हुई गई और दब्बेशेत के क्षेत्र के निकट तक पहुँचती थी। तब यह सीमा संकरी घाटी से होते हुए योकनाम के क्षेत्र तक जाती थी।

הַדְּבָרָת दाबरत	אֶל- पास-	וַיָּצֵא और-निकली	תְּבַרְכִּסְלוֹת किस्लोट-ताबोर	גְּבוּל सीमा	עַל- पर-	הַשָּׁמֶשׁ सूर्य-के	מִזְרָח उदय	קְדָמָה पूर्व-ओर	מִשְׂרֵי सारीद-से	וְשָׁב और-मुड़ी	12
H1705	H0413	H3318	H3696	H1366		H8121	H4217		H8301	H7725	

וְעַלָּה और-चढ़ी	יָפִיעַ: यापी
H5927	H3309

तब यह सीमा पूर्व की ओर मुड़ी थी। यह सारीद से किसलोटताबोर के क्षेत्र तक पहुँचती थी। तब यह सीमा दाबरत और यापी तक चलती गई थी।

וּמִשָּׁם और-वहाँ-से	עָבַר गुजरी	קְדָמָה पूर्व-ओर	מִזְרָחָה पूर्व-दिशा	הַפְּרָגָתָה गित्ता-हेपेर	קִצְיֹעַתָּה इत्ता-कासीन	וַיָּצֵא और-निकली	רִמְמוֹן रिम्मोन	הַמְּתָאָר गोल	הַנְּעֵהָ: नेआ	13
H8033			H4217	H1662	H6278	H3318		H0413	H5269	

तब सीमा पूर्व में गथेपेर और इत्कासीन तक लगातार थी। यह सीमा रिम्मोन पर समाप्त हुई। तब सीमा मुड़ी और नेआ तक गई।

וְנֹסַב और-घूमि	אֵתוֹ उसे	הַגְּבוּל सीमा	מִצְפּוֹן उत्तर-से	חַנְּנָתוֹן हन्नतोन	וְהָיוּ और-थीं	וְהָיוּ और-थीं	בְּנֵי- बेटों-	יַפְתָּח-אֶל: यिप्तह-एल
H5437	H0853	H1366	H6828	H2615	H1961	H8444	H1516	H3317

नेआ पर फिर सीमा मुड़ी और उत्तर की ओर गई। यह सीमा हन्नतोन तक पहुँची और लगातार यिप्तहेल की घाटी तक गई।

וּקְטָת और-कट्टात	וּנְחָלָל और-नहलाल	וּשְׁמֹרֹן और-शिम्मोन	וַיְדָאֵלָה और-यिदाला	לְחֶסְבוֹבִית और-बैत-लहम	עָרִים नगर	שְׁתֵּים- बारह-	עֲשָׂרָה दस	וַחֲצָרִיָּהוֹן: और-उनकी-बस्तियाँ	15
H7005	H5096		H3030	H1035		H8147	H6240		

इस सीमा के भीतर कत्तात, नहलाल, शिम्रोन यिदला और बेतलेहेम नगर थे। सब मिलाकर ये बारह नगर अपने खेतों के साथ थे।

זאת	נחלת	בני-	זבולן	למשפחותם	הערים	האלה	והצריהן:	פ	16
यह	मीरास	बेटों-	ज़बूलून	उनके-कुलों-के-अनुसार	नगर	ये	और-उनकी-बस्तियाँ	—	
	H5159		H2074	H4940		H0428			

अतः ये नगर और क्षेत्र हैं जो ज़बूलून को दिये गए। ज़बूलून के हर एक परिवार समूह ने इस भूमि को प्राप्त किया।

למשפחותם:	יששכר	לבני	הרביעי	הגורל	יצא	ליששכר	17
उनके-कुलों-के-अनुसार	यिस्साकार	बेटों-के-लिए	चौथी	चिट्ठी	निकली	यिस्साकार-के-लिए	
H4940	H3485		H7243	H1486	H3318	H3485	

इस्साकार के परिवार समूह को चौथे हिस्से की भूमि दी गई। उस परिवार समूह में हर एक परिवार ने कुछ भूमि पाई।

ויהי	גבולם	יזרעאלה	והכסולת	ושונם:	18
और-थी	उनकी-सीमा	यिज़ेला	और-कसूलोत	और-शूनेम	
H1961	H1366	H3157	H3694	H7766	

उस परिवार समूह को जो भूमि दी गई थी वह यह है: यिज़ेल, कसुल्लोत, शूनेम

והפרים	ושיאן	ואנחרת:	19
और-हपरायिम	और-शीओन	और-अनाहरत	
H2663	H7866	H0588	

हपारेम, सीओन, अनाहरत,

והרבית	וקשיון	ואבץ:	20
और-रब्बीत	और-किशयोन	और-एबेस	
H7245	H7191	H0077	

रब्बीत, किशयोन, एबेस,

ורמת	ועין-גנים	תרהועין	פצץ: ורבית	21
और-रेमेत	और-एन-गन्नीम	और-एन-हदा	और-बैत-पस्सेस	
H7432	H5873	H5876	H1048	

रेमेत, एनगन्नीम, एन हददा और बैतपस्सेस।

ופנע	הגבול	בתבור	ושחצומה]	(ושחצומה)	שמשובית	והיו	תצאות	גבולם	22
और-छूई	सीमा	ताबोर-को	—	और-शहसीमा	और-बैत-शेमेश	और-थी	सीमाएँ	उनकी-सीमा-की	
H6293	H1366	H8396	H7831	H7831	H1053	H1961	H8444	H1366	

הירדן	ערים	שש-	עשרה	והצריהן:
यरदन	नगर	सोलह-	दस	और-उनकी-बस्तियाँ
H3383		H8337	H6240	

उनके प्रदेश की सीमा ताबोरशहसूमा और बैतशेमेश को छूती थी। यह सीमा यरदन नदी पर समाप्त होती थी। सब मिलाकर सोलह नगर और उनके खेत थे।

זאת	נחלת	מטה	בני-	יששכר	למשפחותם	הערים	והצריהן:	פ	23
यह	मीरास	गोत्र-के	बेटों-	यिस्साकार	उनके-कुलों-के-अनुसार	नगर	और-उनकी-बस्तियाँ	—	
	H5159	H4294		H3485	H4940				

ये नगर और कस्बे इस्साकार परिवार समूह को दिये गए प्रदेश के भाग थे। हर एक परिवार ने इस प्रदेश का भाग प्राप्त किया।

ויצא	הגורל	החמישי	למטה	בני-	אשר	למשפחותם:	24
और-निकली	चिट्ठी	पाँचवीं	गोत्र-के-लिए	बेटों-	आशेर	उनके-कुलों-के-अनुसार	
H3318	H1486	H2549	H4294		H0836	H4940	

आशेर के परिवार समूह को पाँचवें भाग का प्रदेश दिया गया। इस परिवार समूह के प्रत्येक परिवार को कुछ भूमि मिली।

25	וַיְהִי אֵת-גְּבוּלָם וְהַלְקַת וְחֻלֵי וּבֵטֵן וְאַכְשָׁף:
	और-थी और-हली और-बेतन और-अक्शाप
	H1961 H1366 H2520 H2482 H0991 H0407

उस परिवारसमूह को जो भूमि दी गई वह यह है: हेल्कत, हली, बेतेन, अक्षाप,

26	וְאֶל-מְלִיךָ וְעַמְעָד וּמִשְׁאֵל וּפְנֵעַ בְּכַרְמֵל הַיְמָנָה לְבָנֹת: וּבְשִׁיחֹר
	और-अलम्लेक और-आमआद और-मिशाल और-छूई और-कर्मल-को पश्चिम-ओर और-शीहोर-लिब्नात
	H0487 H6008 H4861 H6293 H3760 H3220 H7884

अलाम्लेक, अमाद और मिशाल। पश्चिमी सीमा लगातार कर्मल पर्वत और शीहोलेब्नात तक थी।

27	וְשֵׁב מִזְרַח הַשָּׁמֶשׁ רְגֹנֹבִית וּפְנֵעַ בְּבִלְוִן וּבְנֵי יַפְתָּח-אֵל צְפוֹנָה הָעֵמֶק-בֵּית
	और-मुड़ी उदय और-के-सूर्य बैत-दागोन और-छूई और-को-जबूलून और-घाटी और-एल-यिप्तह और-ओर-उत्तर
	H7725 H4217 H8121 H1016 H6293 H2074 H1516 H3317 H6828 H1025
	וּנְעִיאֵל וַיָּצָא אֶל-כָּבוּל מִשְׁמָאל: בָּאֵי-אֶת-מִשְׁמָאל
	और-निईल और-निकली और-पास-काबुल और-से-बाई-ओर
	H5272 H3318 H0413 H3521 H8040

तब सीमा पूर्व की ओर मुड़ी। यह सीमा बैतदागोन तक गई। यह सीमा जबूलून और यिप्तहेल की घाटी को छू रही थी। तब यह सीमा बेतेमेक और नीएल के उत्तर को गई थी। यह सीमा काबूल के उत्तर से गई थी।

28	וְעַבְרֹן וְרְהוֹב וְחַמְמוֹן וְקָנָה עַד צִדְדִּין רָבָה:
	और-एब्रोन और-रहोब और-हम्मोन और-काना तक और-सीदोन बड़े
	H5683 H7340 H2540 H7071 H5704 H6721

तब यह सीमा एब्रोन, रहोब, हम्मोन और काना को गई थी। यह सीमा लगातार बड़े सीदोन क्षेत्र तक चली गई थी।

29	וְשֵׁב הַגְּבוּל הַרְרָמָה וְעַד-עִיר מְבַצְרָ-צָר וְשֵׁב הַגְּבוּל הַחֹסָה וַיְהִיוּ
	और-मुड़ी सीमा सीमा और-मुड़ी सौर और-मुड़ी सीमा और-मुड़ी सीमा और-मुड़ी सीमा और-मुड़ी सीमा
	H7725 H1366 H7414 H5704 H4013 H6865 H2621 H1961
	(וַיְהִיוּ) וְהָיָה-אֵת-הַיְמָנָה מִחֻבֵּל אַכְזִיבָה: אֶת-הַיְמָנָה
	और-थी और-सीमाएँ उसकी-ओर समुद्र-ओर से-हिस्से से-अकजीबा
	H1961 H8444 H3220 H0392

तब यह सीमा दक्षिण की ओर मुड़ी रामा तक गई। यह सीमा लगातार शक्तिशाली नगर सौर तक गई थी। तब यह सीमा मुड़ती हुई होसा तक जाती थी। यह सीमा अकजीब,

30	וְעַמְמָ וַאֲפֶק וְרְהוֹב עָרִים עָשְׂרִים וּשְׁתַּיִם וַחֲצִרֵיהֶן:
	और-उम्मा और-अपेक और-रहोब और-रहोब और-नगर और-बीस और-दो और-उनकी-बस्तियाँ
	H5981 H0663 H7340 H6242 H8147

उम्मा, अपेक और रहोब के क्षेत्र में सागर पर समाप्त होती थी। सब मिलाकर वहाँ बाईस नगर और उनके खेत थे।

31	זֵאת נַחֲלַת מִטָּה בְּנֵי-אָשֶׁר לְמִשְׁפַּחְתָּם הָעָרִים הָאֵלֶּה וַחֲצִרֵיהֶן:
	यह मीरास गोत्र-के बेटों-आशेर और-कुलों-के-अनुसार और-नगर ये और-उनकी-बस्तियाँ
	H2063 H5159 H4294 H0836 H4940 H0428

ये नगर व उनके खेत आशेर परिवार समूह को दिये गए प्रदेश के भाग थे। उस परिवार समूह में हर एक परिवार ने इस भूमि का कुछ भाग पाया।

32	לְבָנֵי נַפְתָּלִי יָצָא הַגּוֹרָל הַשְּׁשִׁי לְבָנֵי נַפְתָּלִי לְמִשְׁפַּחְתָּם:
	और-के-बेटों नफ्ताली निकली चिट्ठी के-लिए नफ्ताली के-लिए उनके-कुलों-के-अनुसार
	H5321 H3318 H1486 H8345 H5321 H4940

नफ्ताली के परिवार समूह को इस प्रदेश के छठे भाग की भूमि मिली। इस परिवार समूह के हर एक परिवार ने उस प्रदेश की कुछ भूमि पाई।

33	ויהי	גבולם	מחלקה	מאלון	בצעננים	ואדמי	הנקב	ויבנאל	עד-	לקום	ויהי
	और-थी	उनकी-सीमा	हेलेप-से	एलोन-से	सानत्रीम	और-अदामी	नेकेब	और-यबनेल	तक-	लक्कूम	और-थी
	H1961	H1366	H2501	H0438	H6815	H0129	H5346	H2995	H5704	H3946	H1961

הגדרתו
उसकी-सीमाएँ
यरदन
[H3383](#) [H8444](#)

उनके प्रदेश की सीमा सानत्रीम के क्षेत्र में विशाल वृक्ष से आरम्भ हुई। यह हेलेप के निकट है। तब यह सीमा अदामी ने केब और यबनेल से होकर गई। यह सीमा लक्कूम पर समाप्त हुई।

34	ושב	הגבול	ימה	תבוראזנות	ויצא	משם	חוקקה	ופגע	בזבלון	מזנב
	और-मुड़ी	सीमा	पश्चिम-ओर	अज्नीत-ताबोर	और-निकली	वहाँ-से	हूकोक	और-छूई	जबूलून-को	दक्षिण-से
	H7725	H1366	H3220	H0243	H3318	H8033		H6293	H2074	H5045

ובאשר
और-आशेर-को
פגע
छूई
מזם
पश्चिम-से
ויבחהוזה
और-यहूदा-को
הגדרתו
यरदन
מזרח
उदय
השמש
सूर्य-के
[H8121](#) [H4217](#) [H3383](#) [H3063](#) [H3220](#) [H6293](#) [H0836](#)

तब यह सीमा पश्चिमी को अज्नीतताबोर होकर गई। यह सीमा हुक्कोक पर समाप्त हुई। यह सीमा दक्षिण को जबूलून क्षेत्र तक गई थी। यह सीमा पश्चिम में आशेर के क्षेत्र तक पहुँचती थी। यह सीमा पूर्व में यरदन नदी पर यहूदा को जाती थी।

35	וערי	מבצר	הצרים	זר	וחמות	רקת	וכנרת
	और-नगर	गढ़	हस्सीदीम	सेर	और-हम्मत	रक्कत	और-किन्नरेत
	H4013	H6661	H6863	H7557	H3672		

इस सीमा के भीतर कुछ बहुत शक्तिशाली नगर थे। ये नगर सिदीम, सेर, हम्मत, रक्कत, किन्नरेत,

36	ואדמה	והרמה	וחצור
	और-अदामा	और-रामा	और-हासोर
	H0128	H7414	H2674

अदामा, रामा हासोर,

37	וקדש	ואדרעי	חצור:ועין
	और-केदेश	और-एद्रेई	और-एन-हासोर
	H6943	H0154	H5877

केदेश, एद्रेई, अन्हासेर,

38	ויראון	ומגדל-אל	חרם	ובית-ענת	שמשובית	ערים	תשע-	עשרה	וחצריהן:
	और-यिराओन	और-मिगदल-एल	होरेम	और-बैत-अनात	और-बैत-शेमेश	नगर	उन्नीस-	दस	और-उनकी-बस्तियाँ
	H3375	H4027	H2765	H1043	H1053		H8672	H6240	

यिरोन, मिगदलेल, होरेम, बेतनात और बेतशेमेश थे। सब मिलाकर वहाँ उन्नीस नगर और उनके खेत थे।

39	זאת	נחלת	מטה	בני-	נפתלי	למשפחתם	הערים	וחצריהן:	פ
	यह	मीरास	गोत्र-के	बेटों-	नफ्ताली	उनके-कुलों-के-अनुसार	नगर	और-उनकी-बस्तियाँ	—
	H2063	H5159	H4294		H5321	H4940			

ये नगर और उनकी चारों ओर के कस्बे उस प्रदेश में थे, जो नफ्ताली के परिवार समूह को दिया गया था। उस परिवार समूह के हर एक परिवार ने इस भूमि का कुछ भाग पाया।

40	למטה	בני-	דן	למשפחתם	הגורל	השביעי:
	गोत्र-के-लिए	बेटों-	दान	उनके-कुलों-के-अनुसार	चिट्टी	सातवीं
	H4294		H1835	H4940	H1486	H7637

तब दान के परिवार समूह को भूमि दी गई। उस परिवार समूह के हर एक परिवार ने इस भूमि का कुछ भाग पाया।

41	ויהי	גבול	נחלתם	צרעה	ואשתאול	שמש:ועיר
	और-थी	सीमा	उनकी-मीरास-की	सारा	और-एश्ताओल	और-ईर-शेमेश
	H1961	H1366	H5159	H6881	H0847	H5905

उनको जो प्रदेश दिया गया वह यह है: सोरा, एशताओल, ईरशेमेश,

וַיִּתְּלָהּ : וְאֵילֹן וְשַׁעֲלָבִין 42
और-यित्ला और-अय्यालोन और-शालब्बीन
H3494 H0357 H8169

शालब्बीन, अय्यालोन, यितला,

וְעֶקְרוֹן : וְתַמְנָתָהּ וְאֵילֹן 43
और-एक्रोन और-तिम्नाता और-एलोन
H6138 H8553 H0356

एलोन, तिम्ना, एक्रोन,

וּבְעֵלְתָּ : וְגִבְבָתוֹן וְאֵלְתֵּקָה 44
और-बालत और-गिब्बतोन और-एलतेके
H1191 H1405 H0514

एलतके, गिब्बतोन, बालात,

וְנַתְרָמוֹן : וּבְנֵי-בָרֶק וַיְהִי 45
और-गत-रिम्मोन और-बने-बरक और-यहूद
H1667 H1139 H3055

यहूद, बेनेबराक, गत्रिम्मोन,

יָפוֹ : מוֹל הַגְּבוּל עַם- וְהַרְקוֹן הַיְרָקוֹן וַיְמִי 46
यापो सामने सीमा साथ- और-रक्कोन और-मे-यर्कोन
H3305 H4136 H1366 H7542 H4313

मेयक्कोन, रक्कोन और यापो के निकट का क्षेत्र।

לְשֵׁם עַם- וַיִּלְחַמוּ דָן בְּנֵי- וַיַּעֲלוּ מִמָּהּ דָן בְּנֵי- גְבוּל- וַיִּצֵּא 47
लेशेम साथ- और-लड़े दान बेटे- और-चढ़े उनसे दान बेटों- सीमा- और-निकली
H3959 H1835 H5927 H1992 H1835 H1366 H3318

וַיִּקְרָא וַיְקָרְבוּ וַיִּשְׁבוּ אֹתָהּ וַיִּרְשׁוּ וַיְקָרְבוּ וַיִּלְכְּדוּ 48
और-बुलाया उसमें और-बसे उसे और-अधिकार-किया तलवार धार- उसे और-मारा उसे और-ले-लिया
H7121 H3427 H0853 H3423 H2719 H6310 H0853 H5221 H0853 H3920

אֲבִיהֶם : דָן קָשָׁם דָן לְשֵׁם-
अपने-पिता-के दान नाम-के-अनुसार दान लेशेम-को
H0001 H1835 H8034 H1835 H3959

किन्तु दान के लोगों को अपना प्रदेश लेने में परेशानी उठानी पड़ी। वहाँ शक्तिशाली शत्रु थे और दान के लोग उन्हें सरलता से पराजित नहीं कर सकते थे। इसलिए दान के लोग गए और लेशेम के विरुद्ध लड़े। उन्होंने लेशेम को पराजित किया तथा जो लोग वहाँ रहते थे, उन्हें मार डाला। इसलिए दान के लोग लेशेम नगर में रहे। उन्होंने उसका नाम बदल कर दान कर दिया क्योंकि यह नाम उनके परिवार समूह के पूर्वज का था।

פּ וַחֲצִרְיָהּ : וְהָאֵלֶּה הָעָרִים לְמִשְׁפַּחָתָם דָן בְּנֵי- מְטָה נַחֲלָתָהּ זֵאת 48
— और-उनकी-बस्तियाँ ये नगर उनके-कुलों-के-अनुसार दान बेटों- गोत्र-के मीरास यह
H0428 H4940 H1835 H4294 H5159 H2063

ये सभी नगर और खेत उस प्रदेश में थे जो दान के परिवार समूह को दिया गया था। हर एक परिवार को इस भूमि का भाग मिला।

נַחֲלָה יִשְׂרָאֵל בְּנֵי- וַיִּתְּנוּ לְגְבוּלֵיהֶּם הָאָרֶץ אֶת- לְנַחֲלָה- וַיְכַלּוּ 49
मीरास इस्राएल बेटों- और-दी उसकी-सीमाओं-के-अनुसार भूमि को मीरास-बाँटने-को और-समाप्त-किया
H5159 H3478 H5414 H1367 H0776 H0853 H5157 H3615

לְיָהוֹשֻׁעַ : בְּ- נֹון בְּ- לְיָהוֹשֻׁעַ
अपने-बीच-में नून बेटे- यहोशू-को
H8432 H5126 H3091

इस प्रकार प्रमुखों ने प्रदेश का बँटवारा करना और विभिन्न परिवार समूहों को उन्हें देना पूरा किया। जब उन्होंने वह पूरा कर लिया तब इस्राएल के सब लोगों ने नून के पुत्र यहोशू को भी कुछ प्रदेश देने का निश्चय किया। ये वही प्रदेश थे जिन्हें उसको देने का वचन दिया गया था।

עַל- 50
 פִּי יְהוֹוָה נָתַנְנִי לֹא אֶת- הָעִיר אֲשֶׁר שָׁאַל אֶת- תְּמַנַּת-סֶרֶחַ בְּהָר
 मुँह यहीवा-के दी उसे को नगर जो माँगा को तिम्नत-सेरह पहाड़-में
[H6310](#) [H3068](#) [H5414](#) [H0853](#) [H7592](#) [H0853](#) [H2022](#)

אֶפְרַיִם וּבִנְיָה אֶת- הָעִיר וַיָּשֶׁב בָּהּ :
 एप्रायिम और-बनाया को नगर और-बसा उसमें
[H0669](#) [H1129](#) [H0853](#) [H3427](#)

यहोवा ने आदेश दिया कि उसे यह प्रदेश मिले। इसलिए उन्होंने एप्रायिम के पहाड़ी प्रदेश में यहोशू को विम्नत्सेरह नगर दिया। यही वह नगर था, जिसके लिये यहोशू ने कहा था की मैं उसे चाहता हूँ। इसलिए यहोशू ने उन नगर को अधिक दृढ़ बनाया और वह उसमें रहने लगा।

אֵלֶּה הַנְּחֻלֹּת אֲשֶׁר נָחַלְנָה מִיָּאֲזָרָא אֶלְעָזָר וְהַכֹּהֵן וַיְהוֹשֻׁעַ בֶּן- נוּן וְרָאשֵׁי הָאָבוֹת
 ये मीरासें जो मीरास-में-दीं एलीआज़ार याजक और-यहोशू और-मुखिया नून पितरों-के
[H0428](#) [H5159](#) [H5157](#) [H0499](#) [H3548](#) [H3091](#) [H5126](#) [H0001](#)

לְמִטּוֹת לְבָנֵי- וַיִּשְׂרָאֵל וּבְנוֹרָל בְּשִׁלֹה לְפָנַי יְהוֹוָה פָּתַח אֶהָל מוֹעֵד וַיְכַלֵּן
 गौत्रों-के-लिए बेटों- इस्राएल चिट्टी-से बंनोरल शिलो-में सामने यहोवा तम्बू द्वार-पर तम्बू मिलाप-के और-समाप्त-किया
[H4294](#) [H3478](#) [H1486](#) [H7887](#) [H6440](#) [H3068](#) [H6607](#) [H0168](#) [H4150](#) [H3615](#)

מִחֶלֶק אֶת- הָאָרֶץ : פ
 बाँटना को भूमि —
[H0853](#) [H0776](#)

इस प्रकार ये सारे प्रदेश इस्राएल के विभिन्न परिवार समूह को दिये गए। प्रदेश का बँटवारा करने के लिये शिलो में याजक एलीआज़र नून का पुत्र यहोशू और हर एक परिवार समूह के प्रमुख एकत्र हुए। वे यहोवा के सामने मिलापवाले तम्बू के द्वार पर इकट्ठे हुए थे। इस प्रकार उन्होंने प्रदेश का विभाजन पूरा कर लिया था।